

कम्प्यूटर

कक्षा-10

इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य होगा।

पूर्णांक 100

1. सी भाषा का परिचय एवं कोडिंग 15 अंक
 - 1.1 सी भाषा परिचय, महत्व एवम् वैरियेबल्स की अवधारणा
 - 1.2 कैरेक्टर सेट, डाटा टाइप एवं ऑपरेटर
 - 1.3 इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स
 - 1.4 जंपिंग एवं ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, इफ-एल्स स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स
2. एरे : स्ट्रिंग और फंक्शन 15 अंक
 - 2.1 एरे: परिचय, सिंगल एवम् डबल डायमेंशन
 - 2.2 सर्चिंग एवं सार्टिंग : बाइनरी सर्च, लिनियर सर्च, बबल शॉट, सिलेक्शन सॉर्ट
 - 2.3 फंक्शन एवं सबरूटीन: टाइप्स ऑफ फंक्शन, कॉलिंग ऑफ फंक्शन
 - 2.4 स्ट्रिंग मैनिपुलेशन
 - 2.5 स्ट्रक्चर एंड यूनियन से परिचय एवं उनका अनुप्रयोग
3. प्वाइंटर और फाइल संचालन 10 अंक
 - 3.1 प्वाइंटर : परिचय, प्वाइंटर्स और एरे, प्वाइंटर्स एवं स्ट्रक्चर, प्वाइंटर्स और फंक्शन
 - 3.2 फाइल हैंडलिंग
4. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए. आई.) एवं ड्रोन प्रौद्योगिकी 15 अंक
 - 4.1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय
 - 4.2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा भविष्य एवं विशेषताएं
 - 4.3 इंटेलिजेंट एजेंट
 - 4.4 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग
 - 4.5 समस्या समाधान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग उदाहरण सहित
 - 4.6 ड्रोन प्रौद्योगिकी का परिचय
 - 4.7 ड्रोन प्रौद्योगिकी की परिभाषा, इतिहास एवम् विशेषताएं
 - 4.8 ड्रोन प्रौद्योगिकी का प्रमुख क्षेत्रों में अनुप्रयोग
 - 4.9 वर्गीकरण : हवाई जहाज, मल्टीरोटर, हाइब्रिड
5. ई-कॉमर्स : और साइबर सुरक्षा 15 अंक
 - 5.1 ई-कॉमर्स : परिचय, ई-कॉमर्स के प्रकार (बी2बी, बी2सी, सी2बी)
 - 5.2 इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम

- 5.3 ई गवर्नेस का सक्षिप्त परिचय
- 5.4 ई गवर्नेस का कुछ प्रमुख क्षेत्रों में उदाहरण सहित अनुप्रयोग
- 5.5 साइबर सुरक्षा के मूल तत्व, महत्व एवं जानकारी
- 5.6 साइबर अपराध और उसके प्रकार : हैकिंग, फिशिंग, साइबर फ्रॉड, स्पूफिंग इत्यादि
- 5.7 रोकथाम
- 5.8 रिपोर्टिंग
- 5.9 समस्या समाधान उदाहरण के साथ

प्रयोगात्मक

20 अंक

- 1- इनपुट आउटपुट पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना।
- 2- कंडीशनल स्टेटमेंट पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना।
- 3- लूपिंग स्टेटमेंट पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना।
- 4- एरे पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना।
- 5- स्ट्रक्चर एवं यूनियन पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना।
- 6- पॉइंटर पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना।
- 7- फाइल ऑपरेशन पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना।
- 8-संर्चिंग एवं सर्टिंग पर आधारित प्रोग्राम तैयार एवं परीक्षण करना

प्रोजेक्ट कार्य

10 अंक

इनमें से कोई दो करना अनिवार्य है तथा दोनों के अंक समान है।

- 1- ड्रोन टेक्नोलॉजी का अध्ययन।
- 2- ई-कॉमर्स एवं उसके अनुप्रयोग पर केस स्टडी।
- 3- ई गवर्नेस के प्रमुख क्षेत्रों में उदाहरण सहित अनुप्रयोग।
- 4- साइबर सिक्योरिटी के अनुप्रयोग का अध्ययन।
- 5- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग के अध्ययन।
- 6-सड़क सुरक्षा तथा जागरूकता दर्शाते हुए Emergency में प्राप्त होने वाली सुविधाओं की विवरणिका तैयार करें।

शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु आन्तरिक मूल्यांकन

1-प्रथम आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा- (प्रयोगात्मक तथा प्रोजेक्ट कार्य)	अगस्त माह	10 अंक (5+5)
2-द्वितीय आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा-(प्रयोगात्मक तथा प्रोजेक्ट कार्य)	दिसम्बर माह	10 अंक (5+5)
3-चार मासिक परीक्षाएं		10 अंक
• प्रथम मासिक परीक्षा (बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) के आधार पर)		मई माह
• द्वितीय मासिक परीक्षा (वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर)		जुलाई माह
• तृतीय मासिक परीक्षा (बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) के आधार पर)		नवम्बर माह
• चतुर्थ मासिक परीक्षा (वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर)		दिसम्बर माह

चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाय।